

राजकीय महाविद्यालय हिसार में प्रथम सूची में शामिल विद्यार्थी फीस जमा करवाने के बाद महाविद्यालय पहुंच कर अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच अवश्य करवायें तथा आवेदन फार्म समेत सभी दस्तावेजों की प्रतिया जमा करवा दे। तभी विद्यार्थी का दाखिला पूर्ण माना जायेगा।

सभी स्नातक प्रथम कक्षाओं में दाखिले के लिये प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अलग अलग कमेटियां गठित कर रखी हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फीस जमा करवाने के बाद कुछ विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रमाण पत्रों की जांच करवाने नहीं पहुंच रहे हैं। प्रथम मैरिट सूची में स्थान पाने वाले कुछ विद्यार्थी फीस भरने के बाद अपना दाखिला निश्चित मान कर घर बैठ गये हैं जबकि उन द्वारा फीस भरने के उपरान्त महाविद्यालय में आवेदन पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ जमा करवाना अति आवश्यक है तभी उनका दाखिला पूर्ण माना जायेगा।

प्रथम सूची में शामिल विद्यार्थियों द्वारा भरी गई फीस की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के दाखिला प्रक्रिया के ओवरआल प्रभारी डा बलवान सिंह ने बताया कि 20 सितंबर शाम 5 बजे तक बी ए प्रथम में 539, बी एस सी नॉन मेडिकल में 251, बी एस सी प्रथम मेडीकल में 124, बी एम कॉम प्रथम में 192, बी कॉम ऑनर्स में 25, बी एस सी मैथ्स ऑनर्स में 22, बी ए ऑनर्स भूगोल में 24, बी ए ऑनर्स अग्रेजी में 29, बी ए ऑनर्स भूगोल में 24 तथा बी ए ऑनर्स अर्थशास्त्र में 26 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन फीस जमा कराई है। जिनमें से ज्यादातर विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में आकर अपने प्रमाण पत्रों की जांच करवा ली है। जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा करवाने के बाद अपने प्रमाण पत्र वेरिफाई नहीं करवाये हैं उन विद्यार्थियों के लिए अति शीघ्र महाविद्यालय पहुंच कर आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ जमा करवाना आवश्यक है ताकि उनकी दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाए।